



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण 1945 (श10)

(सं0 पटना 663) पटना, मंगलवार, 8 अगस्त 2023

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

7 अगस्त 2023

सं0 14/एम 7-279/09 (अंश) 1631—बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1976 तथा पटना विश्वविद्यालय, पटना की धारा-30 में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक सत्रों के दौरान परीक्षा प्रारंभ एवं परिणामों की घोषणा के संबंध में निर्गत अधिसूचना में निम्न प्रकार संशोधन करते हुए निम्न तालिका के अनुसार आयोजित करने का आदेश देती है:-

क्रं0	विश्वविद्यालय का नाम	कोर्स/सत्र	परीक्षा प्रारंभ	परीक्षाफल- प्रकाशन
01	पटना विश्वविद्यालय, पटना	स्नातक फाइन आर्ट सेमेस्टर-VII (सत्र 2019-23)	3 अक्टूबर, 2023	30 नवम्बर 2023
02	मगध विश्वविद्यालय, बोध गया।	डिग्री पार्ट-03 (सत्र 2020-23)	4 अक्टूबर, 2023	30 नवम्बर 2023
		स्नातकोत्तर सेमेस्टर IV (सत्र 2019-21)	5 अक्टूबर, 2023	30 नवम्बर 2023
		स्नातकोत्तर सेमेस्टर III (सत्र 2020-22)	6 अक्टूबर, 2023	30 नवम्बर 2023
		स्नातकोत्तर सेमेस्टर IV (सत्र 2020-22)	7 अक्टूबर, 2023	30 नवम्बर 2023
03	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	स्नातकोत्तर सेमेस्टर IV (सत्र /2020-22)	6 सितम्बर 2023	01 नवम्बर 2023
		स्नातकोत्तर सेमेस्टर III (सत्र 2021-23)	1 नवम्बर 2023	30 नवम्बर 2023
		स्नातकोत्तर सेमेस्टर IV (सत्र 2021-23)	1 नवम्बर 2023	30 नवम्बर 2023

04	वीर कुंवर सिंह, विश्वविद्यालय, आरा	स्नातकोत्तर सेमेस्टर III (सत्र 2021-23)	7 अक्टूबर, 2023	30 नवम्बर 2023
		स्नातकोत्तर सेमेस्टर IV (सत्र 2021-23)	9 अक्टूबर, 2023	30 नवम्बर 2023
05	मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर	स्नातकोत्तर सेमेस्टर IV (सत्र 2021-23)	1 नवम्बर 2023	30 नवम्बर 2023
06	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।	स्नातकोत्तर सेमेस्टर IV (सत्र 2021-23)	16 अक्टूबर, 2023	16 नवम्बर 2023
07	पूर्णिमा विश्वविद्यालय, पूर्णिमा	स्नातकोत्तर सेमेस्टर IV (सत्र 2021-23)	8 अक्टूबर, 2023	16 नवम्बर 2023
08	बी०आर०ए० बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर।	स्नातकोत्तर सेमेस्टर IV (सत्र 2021-23)	31 अक्टूबर, 2023	30 नवम्बर 2023

2. उक्त विश्वविद्यालय उक्त तालिका के अनुसार परीक्षा आयोजित करेंगी। साथ ही निर्धारित समय से पूर्व परिणामों की घोषणा करेंगी।

3. उक्त के अनुसार विश्वविद्यालयों एवं उसके अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालयों के सभी पदाधिकारी, कर्मी, वीक्षक तथा परीक्षा से संबंध रखनेवाले सभी व्यक्ति भारतीय दंड विधान 1860 के तहत लोक सेवक समझे जायेंगे तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

4. उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालयों एवं उसके अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालय अपना पाठ्यक्रम पूरा करेंगे तथा आवश्यकतानुसार अवकाश/छूटियों के दिनों में भी विशेष वर्ग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकतानुसार विभिन्न कक्षाओं को समानान्तर (Concurrent) रूप से आयोजित किया जाय।

5. एकैडमिक कैलेंडर का शत-प्रतिशत अनुपालन करने एवं शैक्षणिक सत्र को नियमित करने हेतु आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तालिका को कंडेन्स (Condense) किया जा सकता है।

6. कोर्स पूरा करने हेतु विश्वविद्यालय में अतिरिक्त कक्षाएँ आयोजित की जाएंगी और इस हेतु आवश्यक अतिथि शिक्षक (Guest faculty) रखने की व्यवस्था की जायेगी।

7. आवश्यकतानुसार परीक्षाएँ लगातार आयोजित की जाएंगी: परीक्षाएँ होती जाएंगी तथा मूल्यांकन हेतु परीक्षा समाप्त होने का इंतजार नहीं कर उत्तर पुस्तिकाएँ समानान्तर रूप से मूल्यांकित की जाएंगी।

8. परीक्षकों/परीक्षा कार्य से संबंधितों का भुगतान नियमानुसार बिना बिलम्ब सुनिश्चित किया जाएगा।

09. आवश्यकतानुसार सायंकालीन एवं ऑन-लाईन कक्षाएँ भी आयोजित की जा सकती है।

10. विधिवत् पाठ योजना को भी आवश्यकतानुसार लागू किया जा सकता है, अर्थात् वांछनीय पठन-पाठन अवधि (Academic Hours) अवश्य पूरा किया जाय।

11. वॉक आउट/स्टे आउट तथा अन्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थियों की पुनर्परीक्षा नहीं होगी।

12. छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी, 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति रखनेवाले छात्र/छात्राओं को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायगा।

विभागीय अधिसूचना संख्या-1153, 1155 एवं 1156 दिनांक-03.07.2023, तथा अधिसूचना संख्या-1190, 1191, 1193, 1194 एवं 1195 दिनांक-06.07.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

13. उपरोक्त पर अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 663-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>